

Article Date	Headline / Summary	Publication
25 Jul 2026	मोटर इंश्योरेंस की शर्त समझना जरूरी, नुकसान कम हो : कौल	Dainik Bhaskar

मोटर इंश्योरेंस की शर्त समझना जरूरी, नुकसान कम हो : कौल



मानसून के दौरान जलभराव, बाढ़ और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ने के मद्देनजर मोटर इंश्योरेंस की सही जानकारी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन इसके लिए जीरो डेप्रिसिएशन कवर और कॉन्सिक्वेंशियल लोस जैसी शर्त को समझना चाहिए। बजाज जनरल इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यू

यह सुविधा नए, लग्जरी और प्रीमियम वाहनों के लिए उपयोगी मानी जाती है। वहीं, कॉन्सिक्वेंशियल लोस उस अतिरिक्त नुकसान को कहा जाता है, जो दुर्घटना के बाद लापरवाही के कारण होता है। सामान्य मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में यह आमतौर पर कवर नहीं किया जाता। मसलन, यदि जलभराव में फंसे वाहन को बार-बार स्टार्ट करने से इंजन खराब हो जाए तो उसका नुकसान क्लेम में शामिल नहीं हो सकता। ऐसे में वाहन पॉलिसी खरीदते या नवीनीकरण कराते समय उसके कवरेज, शर्त और एक्सक्लुजन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। इससे आर्थिक नुकसान कम तथा क्लेम प्रक्रिया आसान और प्रभावी हो सकती है।